



Birla Cable Limited
(Formerly Birla Ericsson Optical Limited)

Regd. Office & Works:
Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa - 486 006 Madhya Pradesh, India
Telephone: +91 7662 400580, Fax: +91 7662 400680
Email: headoffice@birlacable.com; Website: www.birlacable.com
PAN No. AACB1380L CIN: L31300MP1992PLC007190

BCL/CS/2021-22

10 FEB 2022

BSE Ltd.
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P.J.Towers, Dalal Street,
Fort,
MUMBAI-400 001

The Manager,
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI-400 051

Company's Scrip Code: 500060

Company's Scrip Code: BIRLACABLE

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement – Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 published in Newspapers viz. – Financial Express (in English) and Dainik Jagran (in Hindi) on 10th February, 2022.

We request you to kindly take the above on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
for Birla Cable Ltd.

(Somesh Laddha)
Company Secretary

Encl: As above.



**SMS PHARMACEUTICALS LIMITED**

CIN : L24239TG1987PLC008066

Regd. Office : Plot No. 72, H.No: 8-2-334/3 & 4, Road No. 5, Opp. SBI Executive Enclave, Banjara Hills, Hyderabad TG 500034
Phone: 040-35359999, Fax:040-25259889, Email: complianceofficer@smspharma.com, www.smspharma.com**Extract of Financial Results for the Quarter and nine months Ended 31st December, 2021** (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated	
		Quarter ended		Quarter ended		Quarter ended	
		31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	30.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)
1	Total Income from Operations (net)	12,338.34	46,372.66	14,972.34	12,338.34	46,372.66	14,972.34
2	Profit from Ordinary Activities before Tax	1,656.18	8,482.79	2,674.64	1,632.69	8,459.30	2,674.64
3	Profit from Ordinary Activities after Tax (after Extraordinary Items)	1,050.61	5,897.67	1,832.15	896.26	5,581.09	2,139.35
4	Total Comprehensive Income for the quarter (comprising profit/Loss for the quarter (after tax) and other comprehensive items)	1,045.26	5,882.82	1,829.58	892.66	5,571.48	2,137.23
5	Equity Share Capital (Face value of share: ₹ 1/- each)	846.52	846.52	846.52	846.52	846.52	846.52
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet) ₹ 1/- each	-	-	-	-	-	-
7	Earnings per share (before extraordinary items - (Not annualized))						
	a) Basic/Diluted (in ₹)	1.24	6.97	2.16	1.07	6.59	2.53

Notes:

- The above Standalone and consolidated Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee Meeting held on 8th February, 2022 and approved by the Board of Directors in their meeting held on 9th February, 2022 and Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review.
- These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed Under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- The above is an extract of detailed format of quarterly / half yearly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of quarterly / half yearly financial results are available on the website of the Stock Exchanges of BSE www.bseindia.com (ID 532815), NSE (www.nseindia.com) and companies website (www.SMSPHARMA.com).

By order of the Board
For SMS Pharmaceuticals Limited
Ramesh Babu Polluri
Chairman & Managing Director
(DIN:00166381)

Place: Hyderabad
Date: 09.02. 2022

HITACHI
Inspire the Next**Hitachi Energy India Limited**(Formerly known as ABB Power Products and Systems India Limited)
CIN: L31904KA2019PLC121597Registered office: 8th Floor, Brigade Opus 70/401, Kodigehalli Main Road, Bengaluru 560092

Phone no: +91 80 6847 3700, +91 80 2204 1800, ; Website: www.hitachienergy.com/in;

Email: in-investorhelpdesk_appsil@hitachienergy.com

Extract of unaudited results for the quarter and twelve month ended 31/12/2021

(₹ in crores)

Particulars	Quarter ended 31/12/2021	Twelve months ended 31/12/2021	Corresponding quarter ended 31/12/2020 in the previous year
1 Total income from operations	1,122.57	3,770.51	1,043.61
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	47.50	170.04	46.10
3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	83.35	205.89	75.58
4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	61.66	151.72	54.96
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	63.80	153.22	53.87
6 Equity Share Capital (Face value per share ₹ 2/- each)	8.48	8.48	8.48
7 Earnings per share (of ₹ 2/- each)			
1. Basic	14.55	35.80	12.97
2. Diluted	14.55	35.80	12.97

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.nseindia.com and www.bseindia.com and company's website: www.hitachienergy.com/in.

For Hitachi Energy India Limited
(Formerly known as ABB Power Products and Systems India Limited)

Sd/-

Venu Nuguri
Managing Director & CEO
DIN: 07032076

Bengaluru

February 09, 2022

**onmobile**
OnMobile Global LimitedRegd. Office : OnMobile Global Limited, Tower #1, 94/1C & 94/2, Veerasandra Village, Attibele Hobli, Anekal Taluk, Electronic City Phase-1, Bangalore - 560 100, Karnataka, India
Corporate Identity Number (CIN): L64202KA2000PLC027860

Phone: + 91 80 4009 6000 Fax: + 91 80 4009 6009 E-mail: Investors@onmobile.com, Website: www.onmobile.com

Extract of Unaudited Consolidated Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021

Amount in ₹ Millions except data per share

Particulars	Quarter ended		Nine months ended		Year ended	
	December 31, 2021 (Unaudited)	September 30, 2021 (Unaudited)	December 31, 2020 (Unaudited)	December 31, 2021 (Unaudited)	December 31, 2020 (Unaudited)	March 31, 2021 (Audited)
	Total Income from Operations	1,331.84	1,304.30	1,397.80	3,923.86	4,205.85
Net profit / (loss) for the period before tax (before exceptional items)	123.91	68.94	154.21	343.03	461.82	617.14
Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional items)	123.91	52.94	154.21	400.25	461.82	663.74
Net profit / (loss) for the period after tax	87.19	26.64	113.22	277.89	310.20	459.82
Total Comprehensive Income for the period	173.20	(15.10)	201.39	331.96	467.08	537.97
Paid up equity share capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,053.74	1,053.17	1,037.62	1,053.74	1,037.62	1,044.96
Reserves excluding revaluation reserves (Other equity)	-	-	-	-	-	5,216.07
Earnings / (Loss) per share (in ₹)						
(not annualised except for year ended March 31, 2021)						
(a) Basic	0.83	0.25	1.09	2.65	2.99	4.42
(b) Diluted	0.82	0.25	1.09	2.61	2.99	4.41

Notes:

- (a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.onmobile.com.
- (b) The unaudited consolidated results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meetings held on February 07, 2022 and February 08, 2022 respectively. The above results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. The report of the statutory auditors is unqualified.

2. Key numbers of Standalone Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2021 are as under: Amount in ₹ Millions

Particulars	Quarter ended		Nine months ended		Year ended	
	December 31, 2021 (Unaudited)	September 30, 2021 (Unaudited)	December 31, 2020 (Unaudited)	December 31, 2021 (Unaudited)	December 31, 2020 (Unaudited)	March 31, 2021 (Audited)
	Total Income from Operations	547.63	466.60	519.75	1,541.56	1,525.38
Net profit / (loss) for the period before tax	67.72	16.52	34.36	220.76	175.33	231.01
Net profit / (loss) for the period after tax	41.93	6.62	19.50	140.20	99.69	116.07
Total Comprehensive Income for the period	147.31	(0.28)	3.45	149.02	(1.44)	(4.34)

The standalone results of OnMobile Global limited for the above mentioned periods are available on the Company's website at investors section in www.onmobile.com and also with the stock exchanges website www.nseindia.com and www.bseindia.com.

On behalf of Board of Directors
Sd/-
François-Charles Sirois
Executive Chairman

Place : Montreal, Canada
Date : February 08, 2022

**BIRLA CABLE LIMITED**

Regd. Office: Udyog Vihar, P.O. Chorchata, Rewa - 486 006 (M.P.)

CIN: L31300MP1992PLC007190

Telephone No: 07662-400580, Fax No: 07662-400680

E-mail: headoffice@birlacable.com; Website: www.birlacable.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2021 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
		1	Total Income from Operations	14281.01	13777.69	8484.50	37325.86
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	603.88	475.03	76.06	1501.64	312.14	1095.75
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	603.88	475.03	76.06	1501.64	312.14	1095.75
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	448.95	365.77	28.91	1115.44	187.68	820.24
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	506.76	127.19	163.90	1380.15	700.47	1252.03
6	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- per share)	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)						13830.86
8	Basic & Diluted Earnings per share (of ₹ 10/- each) (not annualised)	1.50	1.22	0.10	3.72	0.63	2.73

Note: The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2021 are available on the stock exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.birlacable.com.

for Birla Cable Limited
(Harsh V. Lodha)
Chairman
DIN: 00394094
Kolkata

Date : 9th February, 2022**MPS****MPS LIMITED**

CIN: L22122TN1970PLC005795

Registered Office: RR Towers IV, Super A, 16/17, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600 032, Tamil Nadu, India

Tel. No.: +91-44-49162222 | Fax No.: +91-44-49162225

Corporate Office: C-35, Sector-62, Noida - 201307, Uttar Pradesh, India

E-mail: investors@mpslimited.com | Website: www.mpslimited.com

Company Secretary: Mr. Sunil Malhotra; Compliance Officer: Mr. Utkarsh Gupta

POST-BUYBACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF MPS LIMITED

This post-buyback public advertisement (the "Advertisement") is being made in accordance with Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ("SEBI Buyback Regulations") regarding completion of the Buyback.

This Advertisement should be read in conjunction with the public announcement dated December 6, 2021 published on December 7, 2021 ("Public Announcement") and the letter of offer dated January 3, 2022 ("Letter of Offer"), issued in connection with the Buyback.

Unless specifically defined herein, capitalised terms and abbreviations used herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

- MPS Limited (the "Company") had announced the Buyback of up to 9,44,444 (Nine Lakhs Forty Four Thousand Four Hundred and Forty Four) Equity Shares, representing 5.23% of the total paid-up equity share capital of the Company from the shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on Record Date i.e., December 17, 2021, on a proportionate basis, through the "tender offer" process, at a price of INR 900 (Indian Rupees Nine Hundred only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate maximum amount not exceeding INR 85,00,00,000 (Indian Rupees Eighty Five Crores only) excluding the Transaction Costs, which represents 21.50% and 20.35% of the fully paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company as at September 30, 2021 (being the latest standalone and consolidated un-audited & limited reviewed condensed interim financial statements, respectively, as on September 30, 2021, available after the audited financial statements for the period ended March 31, 2021), which is within the statutory limit of 25% of the aggregate of paid-up equity capital and free reserves (including securities premium) of the Company.
- The Buyback was undertaken by way of tender offer through the stock exchange mechanism as prescribed under the SEBI Buyback Regulations and the SEBI Circulars. For the purposes of the Buyback, NSE was the designated stock exchange.
- The Buyback Opening Date was Friday, January 14, 2022 and the Buyback Closing Date was Friday, January 28, 2022.

2. DETAILS OF THE BUYBACK

- 9,44,444 (Nine Lakhs Forty-Four Thousand Four Hundred and Forty-Four) Equity Shares were bought back under the Buyback, at the price of INR 900.00 (Indian Rupees Nine Hundred only) per Equity Share.
 - The total amount utilized in the Buyback is INR 84,99,99,600 (Indian Rupees Eighty-Four Crores Ninety-Nine Lakhs Ninety Nine Thousand and Six Hundred only), excluding Transaction Costs.
 - The Registrar to the Buyback i.e. Cameo Corporate Services Limited ("Registrar"), considered a total of 10,701 valid bids for 32,86,419 Equity Shares in response to the Buyback, which is approximately 3.48 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:
- | Category of Shareholders | No. of Shares Equity available for Buyback | Total no. of bids received | Total Equity Shares bid | Total valid Bids received** | Total valid Equity Shares received** | No. of times (total valid Equity Shares received to the total no. of Equity Shares proposed to be bought back) |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Reserved Category | 1,41,667 | 9,916 | 3,03,797 | 9,916 | 3,01,836 | 2.13 |
| General Category | 8,02,777 | 651 | 29,80,079 | 651 | 29,75,892 | 3.71 |
| Not in master file* | - | 134 | 2,543 | - | - | - |
| Total | 9,44,444 | 10,701 | 32,86,419 | 10,567 | 32,77,728 | 3.47 |
- *134 bids for 2543 Equity Shares were not considered since they were not shareholders as on Record Date.
**Excludes excess bids by 80 shareholders for 1,961 Equity shares under Reserved Category and bids by 14 shareholders for 4,187 Equity Shares under General Category & over and above their shareholding as on Record Date which have not been considered for Acceptance.
- All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the SEBI Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection was dispatched by the Registrar, via email, to the relevant Eligible Shareholders (who have their e-mail IDs registered with the Company) on February 8, 2022. In cases where email IDs were not registered with the Company or depositaries, physical letters of acceptance / rejection were dispatched to the Eligible Shareholders by the Registrar and the same was completed on February 8, 2022.
 - The settlement of all valid bids was completed by NSE Clearing on Tuesday, February 8, 2022. NSE Clearing has made direct funds pay-out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders were not available or if the funds transfer instruction was rejected by the Reserve Bank of India/ relevant bank(s), due to any reasons, then the amount payable to the concerned shareholder will be transferred to the Shareholder Broker for onward transfer to such Eligible Shareholders.
 - Demat Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Account on February 8, 2022. The unaccepted Demat Equity Shares have been unlocked in the account of respective Eligible Shareholders by NSE Clearing on February 8, 2022. 1 bid for 100 Physical Shares were received out of which 44 Physical Shares have been accepted and the Letter of confirmation in compliance with SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 towards the unaccepted 56 Physical Shares were dispatched to the registered address of the Eligible Shareholders on February 8, 2022.
 - The extinguishment of 9,44,444 Equity Shares accepted under the Buyback comprising of 9,44,400 Demat Shares and 44 Physical Shares is currently under process and will be completed on or before February 15, 2022.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

- The capital structure of the Company pre and post Buyback is set forth below:

Particulars	Pre-Buyback*	Post-Buyback**
Authorised share capital	INR 20,00,00,000 (2,00,00,000 Equity Shares)	INR 20,00,00,000 (2,00,00,000 Equity Shares)
Issued, subscribed and fully paid up share capital	INR 18,05,02,600 (1,80,50,260 Equity Shares)	INR 17,10,58,160 (1,71,05,816 Equity Shares)

*As on Record Date i.e., December 17, 2021

#Subject to extinguishment of 9,44,444 Equity Shares accepted in the Buyback

- Details of the Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares have been bought back under the Buyback are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of the total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Share Capital of the Company*
1	ADI BPO Services Limited	5,80,993	61.52	3.40
2	Mukul Mahavir Agrawal	37,543	3.98	0.22
3	Government of Singapore - E	27,679	2.93	0.16
4	Pinebridge Global Funds - Pinebridge India Equity Fund	26,563	2.81	0.16
5	Nihar Nandan Nilekani	10,714	1.13	0.06

* Subject to extinguishment of 9,44,444 Equity Shares accepted in the Buyback

- The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy-back (as of the Record Date, being December 17, 2021) and post the completion of the Buy-back is as follows:

Particulars	Pre-Buyback		Post Buyback*	
	No. of Equity Shares	% to the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% to the post-Buyback Equity Share Capital
Promoters and persons acting in concert (collectively "the Promoters")	1,22,71,608	67.99	1,16,90,615	68.34
Foreign Investors (Including Non-Resident Indians, FIIs)	13,48,368	7.47	54,15,201	31.66
Financial Institutions/Banks & Mutual Funds promoted by Banks/Institutions and Insurance Companies	1,58,898	0.88		
Others (Public, Public Bodies Corporate etc.)	42,71,386	23.66		
Total	1,80,50,260	100.00	1,71,05,816	100.00

* Subject to extinguishment of 9,44,444 Equity Shares accepted in the Buyback

4. MANAGER TO THE BUYBACK

EY
Ernst & Young Merchant Banking Services LLP
The Ruby, 14th Floor, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028, India
Tel No.: +91-22-6192 0000 Fax No.: +91-22-6192 1000
Email: mps.buyback2021@in.ey.com ; Website: www.ey.com/in/mb

